



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]

No. 133]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2005/माघ 20, 1926

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2005/MAGHA 20, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2005

(आय-कर)

का.आ. 185(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड (19) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2005 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 2खख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ धारा 10 के खण्ड (19) के प्रयोजनों के लिए परिस्थितियां और शर्तें ।

2खखक. (1) धारा 10 के खण्ड (19) के प्रयोजनों के लिए, संघ के सशस्त्र बलों ( जिसके अन्तर्गत अर्ध सैनिक बल भी हैं ) के किसी सदस्य की आपरेशन संबंधी कर्तव्यों के दौरान मृत्यु की परिस्थितियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :-

- (i) आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा या व्यपहरण या आक्रमण के कृत्य ;

- (ii) आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई ;
- (iii) अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध में शत्रु कार्रवाई ;
- (iv) विदेश में शांति व्यवस्था मिशन में अभिनियोजन के दौरान कार्रवाई ;
- (v) सीमा पर मुठभेड़ ;
- (vi) माइनों जिनके अन्तर्गत शत्रु की माइनें भी हैं, बिछाना या हटाना और माइन साफ करने संबंधी संक्रियाएं भी हैं ;
- (vii) माइनों के विस्फोट जब वे आपरेशनोन्मुख माइन क्षेत्रों या माइन उठाए जाने वाले या वार्ता वाले माइन क्षेत्रों में शत्रु अथवा अपने सशस्त्र बलों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा के निकट आपरेशन संबंधी क्षेत्रों में बिछाई गई हों ; बिछाई गई हों या उठाई जा रही हों ;
- (viii) प्राकृतिक आपदाओं और बचाव संक्रियाएं चलाने वाली सिविल शक्ति की सहायता करने में ;
- (ix) प्रदर्शनकारियों द्वारा आंदोलन या बलवा या विद्रोह करने को दबाने में सिविल शक्ति की सहायता करने में ;
- (2) उन सशस्त्र बलों ( जिनके अन्तर्गत अर्ध सैनिक बल भी हैं ) के यथास्थिति, विभागाध्यक्ष जहां सशस्त्र बलों के मृतक सदस्य ने अंत में सेवा की है या सेवा मुख्यालयों द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि ऐसे सदस्य की मृत्यु नियम (1) में वर्णित परिस्थितियों में आपरेशन संबंधी कर्तव्यों के दौरान हुई है । ” ।

[अधिसूचना सं. 45/2005/फा. सं. 142/26/2004-टीपीएल]

चन्द्रजीत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिनका समय-समय पर संशोधन किया गया है और अन्तिम संशोधन सं. का.आ. 167(अ) तारीख 4 फरवरी, 2005 द्वारा किया गया था ।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th February, 2005

**(INCOME-TAX)**

**S.O. 185(E).**—In exercise of the powers conferred by section 295 read with clause (19) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (4th Amendment) Rules, 2005.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 2BB, the following rule shall be inserted, namely:-

**“Circumstances and conditions for the purposes of clause (19) of section 10.**

**2BBA.** (1) For the purposes of clause (19) of section 10, the circumstances of death of a member of the armed forces (including para-military forces) of the Union in the course of operational duties shall be the following, namely:-

- (i) acts of violence or kidnapping or attacks by terrorists or anti-social elements;
- (ii) action against extremists or anti-social elements;
- (iii) enemy action in international war;
- (iv) action during deployment with a peace keeping mission abroad;

- (v) border skirmishes;
- (vi) laying or clearance of mines including enemy mines as also mine sweeping operations;
- (vii) explosions of mines while laying operationally oriented mine-fields or lifting or negotiation mine-fields laid by the enemy or own forces in operational areas near international borders or the line of control;
- (viii) in the aid of civil power in dealing with natural calamities and rescue operations;
- (ix) in the aid of civil power in quelling agitation or riots or revolts by demonstrators.

(2) It shall be certified by the Head of the Department where the deceased member of the armed forces (including para-military forces) last served, or the service headquarters, as the case may be, that the death of such member has occurred in the course of operational duties in circumstances mentioned in sub-rule (1)."

[Notification No. 45/2005/F.No. 142/26/2004-TPL]  
CHANDRAJIT SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published *vide* notification No. S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 which has been amended from time to time, and last amended *vide* notification No. S.O. 167(E) dated the 4th February, 2005.